

# Hindi Generation from Interlingua (UNL)

---

Om P. Damani, IIT Bombay  
(Joint work with S. Singh, M. Dalal,  
V. Vachhani, P. Bhattacharya)

# Cross Lingual Information Access: Language Independent Representation

The screenshot shows the AgroExplorer search interface. At the top, it says "AgroExplorer" and "a meaning based multilingual search engine". Below that are two tabs: "Meaning" and "Concept", with "Meaning" selected. A search bar contains the query "moneylenders exploit farmers" and a "Search" button. Below the search bar, it says "Found: 1 results". Underneath, there's a section titled "1. INDIAN AGRICULTURE" with a sub-section "1.1. INDIAN AGRICULTURE". A bulleted list under this section states: "The farmers are still being exploited by moneylenders who provide finance at exorbitant interest rates and there are cartels of traders who pay very little for their produce even in the well recognized mandies in the country." Below this list is a link "View in: [Original Hindi](#) [Marathi UNL](#)". At the bottom of the search results, there are links for "Resources", "Recommend a site", and "Help".


उत्पाद, पैदावार, और विभिन्न फसलों के लिए निश्चारति भूमिकी वृद्धिकी दृष्टिसे भारत ने स्वतंत्रता के बाद से कृषि में काफ़ी उन्नति की है। वह हरति कराति, श्वेत कराति, पीत कराति और नील कराति से गुज़र चुका है। आज विश्व में भारत दूध, फल, काजू, नारायण और चाय का सबसे बड़ा, गहँ, सब्जियाँ, शक्कर और मछली का दूसरा सबसे बड़ा और तम्बाकू और चावल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जनसंख्या में ३५ करोड़ से १५ करोड़ की वृद्धि की बावजूद देश में खाद्यानन् की प्रतविश्वकृतिप्रबलव्यता १९५१ में ३५० ग्राम से अब लगभग ५०० ग्राम परतदिनि, दूध की १२५ ग्राम से २१० ग्राम प्रतदिनि और अंडों की ५ से ३० प्रतीव्रथ बढ़ गयी है। फरि भी अपर हमारे योजनाकारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत के उस विकास को अपेक्षिति महत्व दिया होता जिसका वह पात्र था, तो कृषि उत्पादन और आरथिक विकास कई दृष्टिसे आज वह और भी बहुत स्थिति में होता। आज भी भारत में कृषक बैंकों से अपनी आवश्यकताओं का सरिक़ १५% कृषिक्रियण पाने में समर्थ है। विभिन्न राज्य बीजनगिम हमारे करियानों द्वारा अपेक्षिति ग्रीजों का मात्र १०% ही उत्पन्न कर पाते हैं। फलेहाल, मात्र २३.३०% कृषक विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं का शेष बहुत लामा उदाहरण है और इस साल यद्यन इस घटना, यानि जाने, बाये, मर्ज़े, कीद़ों और रोगों के कारण लगभग २०% फसल का नुकसान होता है। फलों और सब्जियों में नुकसान लगभग ३०% है। कृषक अभी भी ऐसे महाजनों द्वारा शोषिति कर्या जाते हैं जो बेहसिब ब्याज दर पर वित्त प्रदान करते हैं और वस्ताविकों के ऐसे उत्पादक संघ हैं जो देश की सुप्रतिष्ठित मड़गियों में भी उनके उत्पादों की बहुत कम कीमत देते हैं।

What is Agro-Explorer? | CSE, IITB | Media Lab Asia


Best Viewed at 800 \* 600 | IE 5 & above

[Resources](#) | [Recommend a site](#) | [Help](#)

# System Architecture for Achieving Cross Lingual Information Access



# Universal Networking Language (UNL)



[UNL:1]


agt(eat(icl>do).@entry.@present, John(iof>person))

obj(eat(icl>do).@entry.@present, rice(icl>food))

ins(eat(icl>do).@entry.@present, spoon(icl>artifact))

[\UNL]

# UNL Scopes: Representing Embeddings



obj(contact(icl>communicate(agt>person,  
obj>person)):0W.@imperative.@entry  
,farmer(icl>creator):1T.@pl.@def)  
pur(contact(icl>communicate(agt>person,  
obj>person)):0W.@imperative.@entry  
,this:04)  
agt(contact(icl>communicate(agt>person,  
obj>person)):0W.@imperative.@entry  
,you(icl>persons):0J)  
plc(farmer(icl>creator):1T.@pl.@def,:01)  
or:01(region(icl>location):38.@entry,talu  
ka(icl>geographicalarea):4A)  
nam:01(region(icl>location):38.@entry,M  
anchar(icl>geographical place):2R)  
nam:01(taluka(icl>geographical  
area):4A,Khatav(icl>geographical  
area):3U)

For this, you contact the farmers of Manchar region or of Khatav taluka

# HinD (Hindi Deconverter): Yet Another Deconversion Engine

Output Quality

HinD

	agt	aoj	obj	ins
Agt		L	L	L
Aoj			L	L
Obj				R
Ins				

Suffix	Attribute values
uM	@N@N,@M@l,@dlique
U	@N@N,@M@g @dlique
I	@N@N,@F,@g @dlique
iyuM	@N@N,@F,@l,@dlique
aM	@N@N,@NOTH@F,@l,@dlique

Manati


Deco

Prefix	Tense	Aspect	Mood	N	Gen	P	V E
-e raha tha	@past	@progress	-	@sg	@male	3 <sup>rd</sup>	e
-taa hai	@present	@custom	-	@sg	@male	3 <sup>rd</sup>	-
-iyaa tha	@past	@complete	-	@sg	@male	3 <sup>rd</sup>	I
saktii hain	@present	-	@ability	@pl	@female	3 <sup>rd</sup>	A


Simplicity of Specification

# HinD Architecture

Deconversion = Transfer + Generation



# Step-through the Deconverter




Module	Output
UNL Expression	obj(contact(...
Lexeme Selection	संपर्क क्सिन् यह आप क्षेत्र तङ्गुक मंचर खटव contact farmer this you region taluka manchar khatav
Case Identification	संपर्कक्सिन्* यह आप क्षेत्र* तङ्गुक* मंचर खटव contact farmer* this you region* taluka* manchar khatav
Morphology Generation	संपर्क <u>की जे</u> क्सिनैं इस आप क्षेत्र contact .@imperative farmer.@pl this you region तङ्गुके मंचर खटव taluka manchar Khatav
Function Word Insertion	संपर्क <u>की जे</u> <u>क्सिनैं</u> <u>के</u> <u>इसके ले</u> आप क्षेत्र contact farmers this for you region <u>य</u> <u>तङ्गुके</u> <u>के</u> मंचर खटव or taluka of Manchar Khatav
Linearization	इसके ले आप मंचर क्षेत्र य खटव This for you manchar region or khatav तङ्गुके के क्सिनैं के संपर्ककी जे   taluka of farmers contact

# Lexeme Selection

[सं पर क]{ }"contact(icl>communicate(agt>person,obj>person))"  
(V, VOA, VOA-ACT, VOA-COMM, VLTN, TMP, CJNCT, N-V, link, Va)

[पहचा न का व् यक् ति]{ }"contact(icl>representative)"  
(N, ANIMT, FAUNA, MML, PRSN, Na)


Lexical Choice is unambiguous




# Case Marking

Relation	Parent+	Parent-	Child+	Child-
Obj	V	VINT	N	
Agt	V	@past	N	

- Depends on UNL Relation and the properties of the nodes
- Case get transferred from head to modifiers



# Morphology Generation: Nouns



The boy saw me.  
लड़के ने मुझे देखा ।

Boys saw me.  
लड़कों ने मुझे देखा ।

The King saw me.  
राजा ने मुझे देखा ।

Kings saw me.  
राजाओं ने मुझे देखा ।

Suffix	Attribute values
<i>uoM</i>	@N, @NU, @M, @pl, @oblique
<i>U</i>	@N, @NU, @M, @sg, @oblique
<i>I</i>	@N, @NI, @F, @sg, @oblique
<i>iyoM</i>	@N, @NI, @F, @pl, @oblique
<i>oM</i>	@N, @NA, @NOTCH, @F, @pl, @oblique

# Verb Morphology

---

Prefix	Tense	Aspect	Mood	N	Gen	P	V E
-e rahaa thaan	@past	@progress	-	@sg	@male	3 <sup>rd</sup>	e
-taa hai	@present	@custom	-	@sg	@male	3 <sup>rd</sup>	-
-iyaa thaan	@past	@complete	-	@sg	@male	3 <sup>rd</sup>	I
saktii hain	@present	-	@ability	@pl	@female	3 <sup>rd</sup>	A



ਲਕਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਹਾ ਥਾ

(The boy was giving the book)

Suffixes mentioned in the rules get attached to the stems selected from the Stem Dictionary

# After Morphology Generation


---




# Function Word Insertion

संपर्क कीजिए किसानों यह आप क्षेत्र तालुके मंचर खटाव  
संपर्क कीजिए किसानों को इसके लिए आप क्षेत्र या तालुके के मंचर खटाव

Rel	Par+	Par-	Chi+	Chi-	Ch/FW
Obj	V	VINT	N#ANIMT	@topic	<u>को</u>



# Linearization



इस आप मंचर क्षेत्र  
This you manchar region


खटाव तालुके किसानों  
khatav taluka farmers

संपर्क  
contact


# Syntax Planning: Assumptions

---

- The relative word order of a UNL relation's relata does not depend on:
  - Semantic Independence: the semantic properties of the relata.
  - Context Independence: the rest of the expression.
- The relative word order of various relations sharing a relatum does not depend on
  - Local Ordering: the rest of the expression.




# Syntax Planning: Strategy



- Divide a nodes relations in  
Before\_set = {obj,pur,agt}  
After\_set = {}

	agt	aoj	obj	ins
Agt		L	L	L
Aoj			L	L
Obj				R
Ins				




Topo Sort each group:  
pur agt obj  
this you farmer

Final order: this you farmer contact

# Syntax Planning Algo

Stack	Before Current	After Current	Output
<b>region</b> farmer contact			this you
	manchar	taluka	
<b>manchar</b> <b>region</b> taluka farmer contact			
<b>region</b> taluka farmer Contact			this you manchar
taluka farmer contact			this you manchar <b>region</b>



# All Together (UNL -> Hindi)

---

Module	Output
UNL Expression	obj(contact(..
Lexeme Selection	संपर्क किसान् यह आप क्षेत्र तालुक् मंचर खटाव contact farmer this you region taluka manchar khatav
Case Identification	संपर्क किसान्* यह आप क्षेत्र* तालुक्* मंचर खटाव contact farmer* this you region* taluka* manchar khatav
Morphology Generation	संपर्क <u>कीजिए</u> किसानों यह आप क्षेत्र <sup>.</sup> contact .@imperative farmer.@pl this you region तालुके मंचर खटाव taluka manchar Khatav
Function Word Insertion	संपर्क <u>कीजिए</u> <u>किसानों</u> <u>को</u> <u>इसके</u> <u>लिए</u> आप क्षेत्र <sup>.</sup> contact farmers this for you region <u>या</u> <u>तालुके</u> <u>के</u> मंचर खटाव or taluka of Manchar Khatav
Syntax Linearization	इसके लिए आप मंचर क्षेत्र या खटाव This for you manchar region or khatav तालुके के किसानों को संपर्क कीजिए   taluka of farmers contact



# How to Evaluate UNL Deconversion

---

- UNL -> Hindi
- Reference Translation needs to be generated from UNL
  - Needs expertise
- Compromise: Generate reference translation from original English sentence from which UNL was generated
  - Works if you assume that UNL generation was perfect
- Note that fidelity is not an issue



## Input Detail

---

- Marathi -> English -> UNL
- 901 Sentences from Agriculture Domain
- English: Median length 14 word, std dev 7.5
- Hindi Reference translation generated from English



# Manual Evaluation Guidelines

---

**Fluency** of the given translation is:

- (4) *Perfect: Good grammar*
- (3) *Fair: Easy-to-understand but flawed grammar*
- (2) *Acceptable: Broken - understandable with effort*
- (1) *Nonsense: Incomprehensible*

**Adequacy:** How much meaning of the reference sentence is conveyed in the translation:


- (4) *All: No loss of meaning*
- (3) *Most: Most of the meaning is conveyed*
- (2) *Some: Some of the meaning is conveyed*
- (1) *None: Hardly any meaning is conveyed*

# Sample Translations

Hindi Output	Fluency	Adequacy
कवक के कारण आम की नाजुक पत्तियां यदि झुलसे रहे हैं 0.5 प्रतिशत का बोर्ड मिश्रण 10 लीटर पानी के साथ तो पिंडका जाना चाहिए	2	3
परीक्षण के अनुरूप नियमित रूप से फलों की अच्छी वृद्धि के लिए खादों की खुराकें दी जानी चाहिए	3	4
हमें मेथी का फसल के बाद बोता है मेथी और धनिया फसल को अच्छ बढ़ने या अच्छ बढ़ने बता	1	1
जीवाणुक संक्रमण से इसकी जड़े प्रभावित होती हैं	4	4
इमु का पक्षी रेटाइट का परिवार को संबंधित होता है और थोड़ा यह शुतुरमुर्ग के साथ समान दिखती है	2	3

# Results

	<i>BLEU</i>	Fluency	Adequacy
<b>Geometric Average</b>	<b>0.34</b>	<b>2.54</b>	<b>2.84</b>
<b>Arithmetic Average</b>	<b>0.41</b>	<b>2.71</b>	<b>3.00</b>
<b>Standard Deviation</b>	<b>0.25</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>
<b>Pearson Cor. BLEU</b>	<b>1.00</b>	<b>0.59</b>	<b>0.50</b>
<b>Pearson Cor. Fluency</b>	<b>0.59</b>	<b>1.00</b>	<b>0.68</b>



- Good Correlation between Fluency and BLEU
- Strong Correlation between Fluency and Adequacy
- Can do large scale evaluation using Fluency alone

Caution: Domain diversity,  
Speaker diversity



## Future Work

---

- Extend to Marathi and other languages
- Test in domains other than agriculture



---

Thanks !!